



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1369]

No. 1369]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2005/पौष 9, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2005/PAUSA 9, 1927

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1844(अ).—पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 34) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रस्ताव करती है, जिन्हें उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित, सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप, उस तारीख से, राजपत्र में, अंतर्विष्ट अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो सकेंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 है।
- (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पेटेंट नियम, 2003 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (i) और खंड (ii) में “धारा 39, धारा 65 और धारा 125” शब्दों और अंकों के स्थान पर दोनों स्थानों पर क्रमशः “धारा 125” शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- मूल नियमों के नियम 6 में उपनियम (1) के परंतुक का लोप किया जाएगा।
- मूल नियमों के नियम 7 के उपनियम (2) में,—

(क) खंड (क) में, “नकद संदत्त” शब्दों के पश्चात्, “या इलेक्ट्रॉनिक द्वारा अभिप्रेत” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, फीस का “अनुज्ञात समय के भीतर फीसों का संदाय करने के लिए” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ग) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) जहां किसी दस्तावेज की बाबत कोई फीस संदेय है वहां सम्पूर्ण फीस उस दस्तावेज के साथ लगेगी ” ;

5. नियम 10 में और मूल नियमों के स्पष्टीकरण में, “तीन मास” शब्दों के स्थान पर क्रमशः, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे ।

6. मूल नियमों के नियम 12 में,—

(क) नियम (1क) में और स्पष्टीकरण में, “तीन मास” शब्दों के स्थान पर क्रमशः, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) नियम (2) में, “तीन मास” शब्दों के स्थान पर, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) नियम (3) में, “तीन मास” शब्दों के स्थान पर, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे ।

7. मूल नियमों के नियम 24 में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु वह अवधि जिसके भीतर, नियंत्रक जर्नल में आवेदन प्रकाशित करेगा जो सामान्यतया उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से तीस दिन होगी या नियम 24क के अधीन प्रकाशन के लिए अनुरोध करने की तारीख से एक मास होगी ।”

8. मूल नियमों के नियम 24ख में,—

(क) उपनियम (1) में,—

(i) खंड (i) में, “छत्तीस मास” शब्दों के स्थान पर, “अड़तालीस मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) वह अवधि, जिसके भीतर धारा 11ख की उपधारा (3) के अधीन परीक्षा के लिए अनुरोध किया जाता है, यदि लागू है तो, पूर्विकता की तारीख से अड़तालीस मास होगी या भारत में आवेदन फाइल करने की तारीख से अड़तालीस मास या जो भी बाद में हो, 1 जनवरी, 2005 से बारह मास, होगी ।” ;

(iii) खंड (iii) में, “छत्तीस मास” शब्दों के स्थान पर, “अड़तालीस मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (iv) में, “छत्तीस मास” शब्दों के स्थान पर, “अड़तालीस मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) खंड (v) में, “धारा 11ख के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि या” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पूर्व धारा 11ख के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि या” शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (2) में,—

(i) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) वह अवधि, जिसके भीतर नियंत्रक प्राप्त अनुरोध की बाबत आवेदन और विनिर्देशन तथा अन्य दस्तावेजों को परीक्षक को निर्दिष्ट करेगा, ऐसे अनुरोध सामान्यता फाइल करने की तारीख से तीस दिन होगा ;

परंतु ऐसा निर्देश आदेश में किया जाएगा, जिसमें वह उपनियम (i) के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है ।” ;

(ii) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) वह अवधि, जिसके भीतर नियंत्रक परीक्षक की रिपोर्ट का निपटान करेगा, सामान्यता नियंत्रक द्वारा ऐसी रिपोर्ट को प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन होगा।”;

(ग) उपनियम (3) में, “उसके प्राधिकृत अभिकर्ता” शब्दों के स्थान पर, “परीक्षा के लिए अनुरोध करने की तारीख से छह मास के भीतर उसके प्राधिकृत अभिकर्ता” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) नियम (4) में,—

(क) उपखंड (i) में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर, “नौ मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) किसी ऐसे आवेदन को प्रस्तुत करने का समय, जिसमें आदेश देने के लिए परीक्षा की गई है और 1 जनवरी, 2005 पर या पश्चात् प्रथम परीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है, लेकिन पेटेंट (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 के प्रारंभ से पूर्व होगी, उस तारीख से, जिसको आवेदक को अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए आक्षेपों का प्रथम कथन जारी किया गया था, छह मास होगी।”;

(ग) उपखंड (ii) में, “खंड (i)” शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर, “खंड (i) और खंड (क)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

9. मूल नियमों के नियम 26 में, “(1)” कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा ।

10. मूल नियमों के अध्याय 6 में, “कार्यवाही का विरोध करना” शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“पेटेंट देने की कार्यवाही का विरोध करना”।

11. मूल नियमों के नियम 55 में,—

(क)(i) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) पेटेंट का विरोध करना।”;

(ii) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन विरोध करने के लिए अभ्यावेदन और जिसके अंतर्गत कोई कथन और साक्ष्य, यदि कोई हो, अभ्यावेदन के समर्थन में और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध भी है, यदि इस प्रकार की वांछा की गई है तो समुचित कार्यालय में फाइल किया जाएगा ।

(1क) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पेटेंट की धारा 11क के अधीन आवेदन के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व पेटेंट अनुदत्त नहीं किया जाएगा।”;

(ख) उपनियम (3) में, “प्रभाव” शब्द के स्थान पर, “ऐसे अभ्यावेदन की प्रति के साथ प्रभाव” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (4) में, “एक मास” शब्दों के स्थान पर, “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे ;

12. मूल नियमों के नियम 55क में, “धारा 25 की उपधारा (3)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 25 की उपधारा (2)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

13. मूल नियमों के नियम 56 में,—

(क) उपनियम (1) में, “विरोध करने की सूचना” शब्दों के स्थान पर, “नियम 55क के अधीन विरोध करने की सूचना” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (4) में, “धारा 25 की उपधारा (4)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 25 की उपधारा (3)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

14. मूल नियमों के नियम 71 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) वह समय, जिसके भीतर उपनियम (1) के अधीन किए गए अनुरोध का नियंत्रक निपटारा करता है, रक्षा और परमाणु ऊर्जा आवेदनों से संबंधित आविष्कारों के मामलों में सिवाय, सामान्यता ऐसे अनुरोध को फाइल करने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर होगी।”;

15. मूल नियमों के नियम 88 में, “मुद्रांकन” शब्द के स्थान पर, जो दोनों स्थानों पर, “अनुदत्त करना” शब्द रखे जाएंगे।

16. मूल नियमों के नियम 134 के उपनियम (1) में,—

(क) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) धारा 8 के अधीन जानकारी के बारे में फाइल की गई है।”;

(ख) खंड (ट) में, “राजपत्र” शब्दों के स्थान पर, “शासकीय जर्नल” शब्द रखे जाएंगे।

17. मूल नियमों के नियम 138 के उपनियम (1) में, “नियम 24, नियम 55 और नियम 80(1क)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “नियम 24ख, नियम 55 का उपनियम (4) और नियम 80 का उपनियम (1क)” शब्द अंक, और कोष्ठक रखे जाएंगे।

18. मूल नियमों की प्रथम अनुसूची में,—

(क) मद संख्यांक 1, 2, 3 और 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“1.	अनन्तिम/संपूर्ण विनिर्देश के साथ धारा 7, 54 या 135 और नियम 20(1) के अधीन किसी पेटेंट के लिए आवेदन पर	1	1,000	4,000
			प्रत्येक बहुगुणक पूर्ववक्ता की दशा में 1,000 के गुणकों में	प्रत्येक बहुगुणक पूर्ववक्ता की दशा में 4,000 के गुणकों में
2.	अनन्तिम विनिर्देश के पश्चात् संपूर्ण विनिर्देश फाइल करने पर।	2	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
3.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबद्ध फाइल करने पर	3	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
4.	धारा 53(2) और धारा 142(4), नियम 13(6), नियम 24ख(4)(ii), 80(1क) और 130 के अधीन समय के विस्तारण के अनुरोध पर	4	300 प्रति मास	1200 प्रति मास

(ख) मद संख्यांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“12.	धारा 11क(2) और नियम 24क के अधीन	9	2,500	10,000”;
	प्रकाशन के लिए अनुरोध —			

(ग) मद संख्यांक 17 के विरुद्ध उसकी उपमद (xiv) से उपमद (xviii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(xiv)	पन्द्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष की	--	3,000	15,000
--------	---	----	-------	--------

बाबत

(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सत्रहवें वर्ष की बाबत	—	3,000	15,000
(xvi)	सत्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष की बाबत	—	3,000	15,000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष की बाबत	—	3,000	15,000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष की बाबत	—	3,000	15,000”;

(घ) मद संख्यांक 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“23. धारा 11ख(4) और नियम 26(1) के अधीन 9 कोई फीस नहीं कोई फीस नहीं”;
आवेदन के प्रत्याहरण के लिए आवेदन

(ङ) मद संख्यांक 28 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“28. पेटेंट के आवेदन की परीक्षा के लिए अनुरोध पर,— 18

(क) धारा 11ख और नियम 24(1) के अधीन	1,000	3,000
(ख) नियम 20(4)(ii) के अधीन	2,000	6,000”;

19. मूल नियमों की दूसरी अनुसूची में,—

(i) प्ररूप 1 में,—

(क) पैरा 9 की मद (i) की उपमद (ख) में, “हस्ताक्षर” शब्द के स्थान पर, “आविष्कारक (आविष्कारकों) के हस्ताक्षर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 10 के पश्चात्, “पेटेंट नियंत्रक” शब्दों के स्थान पर, “पेटेंटों का नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) प्ररूप 5 में, पैरा 4 के पश्चात्, “पेटेंट नियंत्रक” शब्दों के स्थान पर, “पेटेंटों का नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) प्ररूप 9 के पैरा 2 में, “पेटेंट संख्यांक के लिए आवेदन” शब्दों के स्थान पर, “पेटेंट आवेदन संख्यांक” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) प्ररूप 18 में,—

(क) पैरा 1 में मद (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“(घ) धारा 11क के अधीन आवेदनों के प्रकाशन की तारीख”;

(ख) पैरा 4 के पश्चात्, “पेटेंट नियंत्रक” शब्दों के स्थान पर, “पेटेंटों का नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) प्ररूप 21 के पैरा 1 में, “पेटेंट संख्यांक/संख्यांक” शब्दों के स्थान पर, “पेटेंट संख्यांक” शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) प्ररूप 25 में, “फीस नहीं” आरंभ में आते हैं, लोप किया जाएगा ।

20. मूल नियमों की तीसरी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“तीसरी अनुसूची

(नियम 74 देखिए)

पेटेंट प्ररूप

भारत सरकार

पेटेंट संख्यांक

आवेदन संख्यांक

फाइल करने की तारीख

पेटेंटी

आविष्कारक (जहां लागू हो)

यह प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार तारीख मास, 19/20..... से 20 वर्ष की अवधि के लिए ऊपर लिखित आवेदन में यथा प्रकटित नामक आविष्कार के लिए पेटेंटी को पेटेंट अनुदत्त किया गया है ।

अनुदत्त की तारीख

पेटेंट नियंत्रक

(कार्यालय की मुद्रा)

टिप्पण :—इस पेटेंट के नवीनीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाता हो, तो तारीख 20..... को देय होगी और पश्चातवर्ती प्रत्येक वर्ष में उसी दिन को देय होगी, ।”।

[फा. सं. 14/2/2005-पी.पी. एण्ड सी.]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में तारीख 2 मई, 2003 की अधिसूचना सं० का०आ० 493(अ) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् तारीख 28 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना सं० का०आ० 1418(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2005

S.O. 1844(E).— The following draft of certain rules further to amend the Patents Rules, 2003 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970) is hereby published, as required by sub-section (3) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of the Official Gazette, containing the notification, are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Patents (Second Amendment) Rules, 2005.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4, in sub-rule (1) in the clauses (i) and (ii), for the words and figures “section 39, 65 and 125” occurring at both the places, the word and figures “section 125”, shall respectively be substituted;
3. In rule 6 of the principal rules, in sub-rule (1), the proviso shall be omitted;
4. In rule 7 of the principal rules, in sub-rule (2),-
 - (a) in clause (a), after the words “paid in cash”, the words “or through electronic means” shall be inserted;
 - (b) in clause (b), the words “within the time allowed for payment of the fees” shall be omitted;
 - (c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
“(c) Where a fee is payable in respect of a document, the entire fee shall accompany the document.”;
5. In rule 10 and in the explanation of the principal rules, for the words “three months”, the words “six months” shall respectively be substituted;

6. In rule 12 of the principal rules, -
 - (a) in rule (1A) and in the explanation, for the words "three months", the words "six months" shall respectively be substituted;
 - (b) in rule (2), for the words "three months", the words "six months" shall be substituted;
 - (c) in rule (3), for the words "three months", the words "six months" shall be substituted;
7. In rule 24 of the principal rules, the following proviso shall be added namely:-
 "Provided that the period within which the Controller shall publish the application in the Journal shall ordinarily be thirty days from the date of expiry of said period, or one month from the date of request for publication under rule 24A.";
8. In rule 24B of the principal rules, -
 - (a) In sub-rule (1), -
 - (i) in clause (i), for the words "thirty-six months", the words "forty-eight months" shall be substituted;
 - (ii) for clause (ii), following clause shall be substituted, namely: -
 "(ii) The period within which the request for examination under sub-section (3) of section 11B to be made shall be forty-eight months from the date of priority, if applicable, or forty-eight months from the date of filing of the application in India or twelve months from the 1st day of January, 2005, whichever is later.";
 - (iii) in clause (iii), for the words "thirty-six months", the words "forty-eight months" shall be substituted;
 - (iv) in clause (iv), for the words "thirty-six months", the words "forty-eight months" shall be substituted;
 - (v) In clause (v) for the words, figures and letter "the period specified under the section 11B or", the words, figures and letter "the period specified under the section 11B before the commencement of the Patents (Amendment) Act, 2005 or" shall be substituted;
 - (b) In sub-rule (2),-
 - (i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -
 "(i) The period within which the Controller shall refer the application and specification and other documents to the examiner in respect of the request received shall ordinarily be thirty days from the date of filing of such request;

 Provided that such reference shall be made in order in which the request is filed under sub-rule (1).";
 - (ii) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely: -
 "(iii) the period within which the Controller shall dispose off the report of the examiner shall ordinarily be thirty days from the date of the receipt of the such report by the Controller.";
 - (c) In sub rule (3), for the words "his authorised agent", the words "his authorised agent within six months from the date of the request for examination." shall be substituted;
 - (d) In rule (4),-
 - (a) in sub clause (i), for the words "six months", the words "nine months" shall be substituted;

- (b) after clause (i), following clause shall be inserted, namely:-
 “(ia) The time for putting an application in order for grant which has been examined and First Examination Report issued on or after the 1st day of January, 2005 but before the commencement of the Patents (Second Amendment) Rules, 2005, shall be six months from the date on which the first statement of objections has been issued to the applicant to comply with the requirements.”;
 - (c) in clause (ii), for the word, figures and brackets “clause (i)”, the word figures and brackets “clauses (i) and (ia)” shall be substituted;
9. In rule 26 of the principal rules, the figure and bracket “(1)” shall be omitted;
 10. In Chapter VI of the principal rules, for the heading “OPPOSITION PROCEEDINGS”, the following heading shall be substituted, namely: -
 “OPPOSITION PROCEEDINGS TO GRANT OF PATENT”;
 11. In rule 55 of the principal rules-
 - (a) (i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-
 “(1) Opposition to the patent.”;
 - (ii) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
 “(1) Representation for opposition under sub-section (1) of section 25 shall be filed at the appropriate office and shall include a statement and evidence, if any, in support of the representation and a request for hearing if so desired.
 (1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1), no patent shall be granted before the expiry of a period of six months from the date of publication of the application under section 11A.”;
 - (b) in sub-rule(3), for the word, “effect”, the words, “effect alongwith a copy of such representation” shall be substituted;
 - (c) in sub rule (4), for the words “one month” the words “three months.” shall be substituted;
 12. In rule 55A of the principal rules, for the words, figures and brackets “sub-section (3) of section 25”, the words, figures and brackets “sub-section (2) of section 25” shall be substituted;
 13. In rule 56 of the principal rules, -
 - (a) in sub rule (1), for the words “notice of opposition”, the words figures and letter “notice of opposition under rule 55A” shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (4), for the words, figures and brackets “sub-section (4) of section 25”, the words, figures and brackets “sub-section (3) of section 25” shall be substituted;
 14. In rule 71 of the principal rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
 “(2) The time within which the Controller dispose of the request made under sub-rule (1), except in case of inventions relating to defense and atomic energy applications, shall ordinarily be within a period of twenty one days from the date of filing of such request.”;
 15. In rule 88 of the principal rules, the word “sealing”, occurring at both the places, the word “grant”, shall be substituted;

16. In rule 134 of the principal rules, in sub rule (1), -
 (a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -
 “(aa) as to when the information under section 8 has been filed.”;
 (b) in clause (k), for the words “Official Gazette”, the words “Official Journal” shall be substituted;

17. In rule 138 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words, figures and brackets “in the rules 24,55 and 80(1A)”, the words, figures and brackets “in the rules 24B, sub-rule (4) of rule 55 and sub-rule (1A) of rule 80 shall be substituted;

18. In the THE FIRST SCHEDULE of the principal rules, -

- (a) for items number 1,2,3 and 4 and entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely:-

“ 1.	On application for a patent under sections 7, 54 or 135 and rule 20(1) accompanied by provisional/complete specification.	1	1000	4,000
			Multiple of 1000 in case of every multiple priority.	Multiple of 4,000 in case of every multiple priority
2.	On filing complete specification after provisional.	2	No fee	No fee
3.	On filing a statement and undertaking under section 8.	3	No fee	No fee
4.	On request for extension of time under sections 53(2) and 142(4), rules 13(6), rule 24B(4)(ii), 80(1A) and 130.	4	300 per month	1,200 per month”;

- (b) for item number 12 and entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely:-

“ 12.	Request for publication under section 11A(2) and rule 24A.	9	2500	10,000”;
-------	--	---	------	----------

- (c) against item number 17, for sub-items (xiv) to (xiii) and entries relating thereto, the following sub-items and entries shall be substituted, namely:-

“(xiv)	before the expiration of 15 th year in respect of 16 th year	-	3,000	15,000
(xv)	before the expiration of 16 th year in respect of 17 th year	-	3,000	15,000
(xvi)	before the expiration of 17 th year in respect of 18 th year	-	3,000	15,000
(xvii)	before the expiration of 18 th year in respect of 19 th year	-	3,000	15,000
(xviii)	before the expiration of 19 th year in respect of 20 th year	-	3,000	15,000”;

(d) for item number 23 and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

“23	Application for withdrawing the application under section 11B(4) and rule 26(1)	No fee	No fee”;
-----	---	--------	----------

(e) for item number 28 and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

“28	On request for examination of application for patent –	18		
	(a) under section 11B and rule 24(1)		1000	3000
	(b) under rule 20(4)(ii).		2000	6000.”;

19. In the THE SECOND SCHEDULE of the principal rules,-

(i) in Form 1-

(a) in Para 9, in item (i), in sub-item (b) for the word “Signature(s)”, the words “Signature(s) of the inventor(s)” shall be substituted;

(b) after Para 10, for the words “The Controller of Patent”, the words “The Controller of Patents” shall be substituted;

(ii) in Form 5, after Para 4, for the words “The Controller of Patent”, the words “The Controller of Patents” shall be substituted;

(iii) in Form 9, in Para 2, for the words “application for Patent No., the words “Patent application No.” shall be substituted;

(iv) in Form 18, -

(a) in Para 1, after item (c), the following item shall be added, namely: -

“(d) date of publication of the application under section 11A.....”;

(b) after Para 4, for the words “The Controller of Patent”, the words “The Controller of Patents” shall be substituted;

(v) in Form 21, in Para 1, for the words “patent No./No.”, the words “Patent No.” shall be substituted;

(vi) in Form 25, the words “No Fee”, occurring in the beginning shall be omitted;

20. For THE THIRD SCHEDULE of the principal rules, following Schedule shall be substituted namely:-

"THE THIRD SCHEDULE
(Refer rule 74)
FORM OF PATENT
GOVERNMENT OF INDIA

Patent No.....

Application No.....

Date of filing

Patentee.....

Inventor(s) (Where applicable).....

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled..... as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the.....day of.....19/20....., in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.

Date of Grant-----

Controller of Patents

(Seal of the Office)

Note. — The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall due on..... day of 20..... and on the same day in every year thereafter.”.

[F. No. 14/2/2005-PP & C]

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and subsequently amended vide notification No. S.O. 1418(E) dated 28th December, 2004.